



भारत का सजापत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 189]

नई दिल्ली, गुरुस्वतिवार, मई 31, 1984/ज्यैष्ठ 10, 1906

No. 189]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 31, 1984/JYAISTHA 10, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 31 मई, 1984

अधिसूचना

सं० 168/84-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 421(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-
शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना
आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व
विभाग) की अधिसूचना सं० 117/82-सीमाशुल्क, तारीख,
19 अप्रैल, 1982 का निम्नलिखित और संशोधन करती
है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) पैरा 1 में, “मूल्य के 30 प्रतिशत” शब्दों और
अंकों के स्थान पर “मूल्य के 15 प्रतिशत” शब्द
और अंक रखे जाएंगे।

2 में, “31 मई, 1984” अंकों और शब्दों
के स्थान पर “31 मई, 1985” अंक और शब्द
रखे जाएंगे।

[फा० सं० 355/186/84-सी०शु० I]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 31st May, 1984

NOTIFICATION

NO. 168/84-CUSTOMS

G.S.R. 421(E).—In exercise of the powers con-
ferred by sub-section (1) of section 25 of the
Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central
Government, being satisfied that it is necessary in
the public interest so to do, hereby makes the
following further amendments in the notification of
the Government of India, in the Ministry of Finance

(Department of Revenue) No. 117/82-Customs dated the 19th April, 1982, namely :—

In the said notification,—

- (a) in paragraph 1, for the figures and words “30 per cent ad valorem”, the figures and words “15 per cent ad valorem” shall be substituted;
- (b) in paragraph 2, for the figures, letters and words “31st day of May, 1984”, the figures, letters, and words “31st day of May, 1985” shall be substituted.

[F. No. 355/186/84-Cus-I.]

अधिसूचना

सं० 169/84-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 422(अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 48 के अंतर्गत आने वाले ग्रेप गार्ड को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क से और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, “ग्रेप गार्ड” से ऐसी किस्म का कागज अभिप्रेत है जो साधारणतया अंगूरों को पैक करने के लिए प्रयोग किया जाता है और जिसमें सोडियम मेटा-सल्फेट अंतर्विष्ट करने वाले पतले आयातीय पोच के साथ उस पर चिपकाए गए क्राफ्ट कागज से संपीड़ित अभिक्रिया सफेद कागज की दो शीट हैं और जिसका कवकी क्षय को रोकने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार वह साजा स्थिति में दीर्घकालीन भंडारकरण में सहायता करता है।

2. यह अधिसूचना 30 अप्रैल, 1985 तक, जिसमें तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[फा० सं० 355/121/84-वी० शु०-I]

NOTIFICATION

NO. 169/84-CUSTOMS

G.S.R. 422(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the

Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts grape guard, falling within Chapter 48 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from the when of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule and from the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act.

Explanation.—For the purposes of this notification, “grape guard” means paper of a type generally used for the packing of grapes and which consists of two sheets of treated white paper pressed together with in rectangular pouches containing sodium metasilicate, with kraft paper pasted thereto, and which is used for the purpose of preventing fungal decay and thus helps prolonged storage in fresh condition.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 30th day of April, 1985.

[F. No. 355/121/84-Cus-I]

अधिसूचना

सं० 170/84-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 423(अ):—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1984 (1984 का 21) की धारा 36 की उपधारा (4) के साथ पठित, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 131/84-सीमाशुल्क, तारीख 11 मई, 1984 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं 220 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“221 सं० 169/84-सीमाशुल्क, तारीख 31 मई, 1984”।

[सं० 355/121/84-सीमाशुल्क-I]

एम० एन० विश्वास, अवसर सचिव

NOTIFICATION

NO. 170|84-CUSTOMS

G.S.R. 423(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 36 of the Finance Act, 1984 (21 of 1984), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of

Finance (Department of Revenue) No. 131|84-Customs, dated the 11th May, 1984, namely :—

In the Schedule to the said notification, after Serial No. 220 and the entry relating thereto, the following Serial No. and entry shall be inserted, namely :—

“221. No. 169|84-Customs, dated the 31st May, 1984.”.

[F. No. 355|121|84|84-Cus-I]

M. N. BISWAS, Under Secy.

